

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4842A

L

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : VAC

Semester : IV

Duration : 2 Hours 30 min

Maximum Marks : 70

समय : 2 घण्टे 30 मिनट्स

पूर्णांक : 70

(Part A=30 & Part B=40 marks)

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. What is a Systematic Investment plan? Discuss the benefits of taking an SIP for an investor.

व्यवस्थित निवेश योजना क्या है? एक निवेशक के लिए एसआईपी लेने के लाभों पर चर्चा कीजिए।

2. Explain the concept of Time value of money. Find out the amount and present value of an annuity of ₹1800 payable at the end of each year for 11 years if the rate of interest is 7% p.a. ($PVAF_{(11y,7\%)} = 7.4987$)
धन के समय मूल्य की अवधारणा को समझाइए। रुपये की वार्षिकी की राशि और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज दर 7% प्रति वर्ष है तो 11 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 1800 रुपये देय होंगे। ($PVAF_{(11y,7\%)} = 7.4987$)

3. What is the concept of Insurance? Discuss the various types of insurance schemes an investor can choose from, for investment purposes.

बीमा की अवधारणा क्या है? निवेश उद्देश्यों के लिए निवेशक द्वारा चुनी जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाओं पर चर्चा कीजिए।

4. Discuss how an investor can protect himself against online frauds.

एक निवेशक ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचा सकता है। चर्चा कीजिए।

5. Write short notes :

टिप्पणी कीजिए :

(a) Permanent Account Number

स्थायी खाता संख्या

(b) Financial Discipline

वित्तीय अनुशासन

4842A

2

PART A

(30 marks)

1. Question No. 1 is compulsory.
प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।
4. Answer any **two** questions from question nos. 2 to 4.
प्रश्न संख्या 2 से 4 तक किन्हीं दो के उत्तर लिखिए।
5. All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
6. Use of Simple Calculator is allowed.
साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है।

1. Write short notes on **any two** :
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए :

(a) Power of Compounding

चक्रवृद्धि की क्षमता

(b) Mutual Funds

म्यूचुअल फंड्स

(c) Importance of Savings and Budgeting

बचत और बजट बनाने का महत्व

2. Discuss the role of banking services in promoting financial inclusion in India. How has digitalization transformed the way people manage their financial transactions?

भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंकिंग सेवाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिजिटलकरण ने लोगों के वित्तीय लेन-देन के प्रबंधन के तरीके को कैसे बदल दिया है?

3. (a) Explain the risk-return relationship in investment planning.

4842A

3

निवेश योजना में जोखिम और प्रतिफल के संबंध को समझाइए।

- (b) Describe how an investor can build a balanced portfolio by investing in different asset classes.
एक निवेशक विभिन्न संपत्ति वर्गों में निवेश करके कैसे संतुलित पोर्टफोलियो बना सकता है। विवरण दीजिए।

4. Ms. Sunita, a 25-year-old salaried employee, earns a total income of ₹7,80,000 during the financial year 2025-26. She invests ₹1,10,000 under Section 80C and pays ₹28,000 as health insurance premium for herself and her parents under Section 80D. Compute her tax liability for Assessment Year 2026-27 as per the old tax regime and the new tax regime. Which one is beneficial?

सुश्री. सुनीता, 25 वर्षीय वेतनभोगी कर्मचारी, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल ₹7,80,000 की आय अर्जित करती हैं। उन्होंने धारा 80C के तहत ₹1,10,000 का निवेश किया है और अपने तथा अपने माता-पिता के लिए धारा 80D के अंतर्गत ₹28,000 का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान किया है। पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के अनुसार आकलन वर्ष 2026-27 के लिए उसकी कर देनदारी की गणना करें। कौन सा फायदेमंद है?

PART B

1. Answer any **Four** Questions.
किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
2. Each question carries **10** marks.
प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

P.T.O.